

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 384]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2016—भाद्र 24, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

अधि. क्र. 13-एफ-1-14-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगर परिषदों में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

सं.क्रं.	जिले का नाम	क्रं.	नगर परिषद का नाम	क्रं.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता
1	जिला शाजापुर	1	मक्सी	1	श्री नरेन्द्र कुमार भावसार श्री मोतीलाल भावसार बालाजी गारमेन्ट्स मेन रोड मक्सी
				2	श्री रामचंद्र मारू श्री मालाजी मारू काला भाटा वार्ड नं. 7 मक्सी
		2	(शाहपुरा) अकोदिया	1	श्री मनोज कुमार जैन श्री प्रमीलाल जैन, वार्ड नं. 12 अकोदिया मंडी
				2	श्री प्रेम नारायण श्री शंकरलाल जी वार्ड नं. 15 अकोदिया मंडी

		3	पानखेडी काला पीपल	1	श्री संजय अग्रवाल श्री भगवानदास अग्रवाल अस्पताल के पास मेन रोड कालापीपल मंडी
				2	श्रीमती उमा महेश्वरी श्री विमलजी महेश्वरी व्यायाम शाला रोड कालापीपल मंडी
		4	पोलायकलां	1	श्री घासीराम बागवान श्री बालचंद बागवान वार्ड नं. 7 पोलायकलां
				2	श्री प्रहलाद मण्डलोई श्री बलदेव सिंह मण्डलोई वार्ड नं. 04 पोलायकलां
2	जिला आगर	1	कानड	1	श्री योगेश शर्मा श्री रेवाशंकर शर्मा ब्राम्हण सेरी कानड आगर
				2	श्री भवरलाल खजूरिया श्री प्रेमनारायण खजूरिया थाने के सामने कानड जिला आगर
		2	बडौद	1	श्री महेन्द्र जैन श्री सागरमल जैन हाटपुरा बाजार बडौदा जिला आगर
				2	श्री रतनलाल परमार श्री हीरालाल परमार डग रोड बडौदा जिला आगर
		3	सुसनेर	1	श्री वेद प्रकाश भट्ट श्री भागीरथ भट्ट इतवारीया सुसनेर
				2	श्री रतन सिंह परमार श्री भेरूसिंह परमार राम मंदिर धर्मशाला के पास सुसनेर

		4	सोयत	1	श्री तुलसीराम भावसार श्री देवीलाल भावसार सेरी सोयत
				2	श्री मांगीलाल सेन श्री भवानीशंकर सेन ब्राम्हण गली सोयत
		5	नलखेडा	1	श्री अशोक कुमार श्री श्यामलाल रामदेव जवाहर मार्ग नलखेडा
				2	श्री दिनेश कुमार धुपिया श्री प्रेमचंद्र धुपिया हनुमान मंडी नलखेडा
		6	बडागांव	1	श्री बाबूलाल सुमन श्री पीरूलाल मालीपुरा बडागांव
				2	श्री पारसमल सुराणा श्री फूलचंद सुराणा पुराना हाट बाजार बडागांव
3	जिला नीमच	1	मनासा	1	श्री महेशचंद्र झवर श्री लक्ष्मीनायण झवर अन्नपूर्णा मंदिर के पास बस स्टेण्ड मनासा जिला नीमच
				2	श्री विष्णुलाल चौहान श्री दूधमल चौहान भाटखेडी रोड मनासा जिला नीमच

नीमच	2	कुकडेश्वर	1	श्री देवन्द्र कुमार चौधरी श्री रोडीलाल चौधरी सेंट्रल बैंक के पास कुकडेश्वर जिला नीमच
			2	श्री रामचंद्र गंगवार श्री रूपाचंद्र गंगवार लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास कुकडेश्वर जिला नीमच
	3	जीरन	1	श्री चिंरोजीलाल पाटीदार श्री राधेश्याम पाटीदार सदर बाजार जीरन जिला नीमच
			2	श्री बाबूसिंह राजपूत श्री लाभसिंह राजपूत राजपूत मोहल्ला जीरन जिला नीमच
	4	सिंगोली	1	श्रीमती सुनीता माहेश्वरी श्री राकेश माहेश्वरी वार्ड नं. 2 पुलिस थाने के पास सिंगोली जिला नीमच
			2	श्री केशर राजपूत श्री अमर सिंह राजपूत वार्ड नं. 12 वीर तेजाजी मार्ग सिंगोली जिला नीमच
	5	नयागांव	1	श्री गोपाल सोनी श्री रामचंद्र सोनी जैन मंदिर के पास नयागांव जिला नीमच
			2	श्री संदीप न्याति श्री शिव जी न्याति नयागांव जिला नीमच

	नीमच	6	रामपुरा नगर	1	श्री आबिद अली श्री मुख्तार अली मदार बाग रामपुर जिला नीमच
				2	श्री ज्योति बागवान श्री प्रकाश बागवान लाल बाग रोड रामपुरा जिला नीमच
4	जिला - धार	1	सरदारपुर	1	श्री मांगीलाल यादव श्री तुलसीदास यादव गवाला टोली सरदारपुर
				2	श्री चेतन्य वैष्णव श्री नंदकिशोर वैष्णव माहि मार्ग वार्ड क्रं. 8 वक्तावर मार्ग सरदारपुर
		2	राजगढ	1	श्री सुरेश भंडारी श्री प्यारचंद भंडारी हत्यारी गली राजगढ
				2	श्री राजेश मुडत श्री ब्रजेश मुडत राजगढ
		3	बदनवार	1	श्री नजमुद्दीन बोहरा श्री अकबर अली बोहरा वार्ड क्रं. 2 लालालाजपत राय बदनवार
				2	श्री प्रेमचंद परमार श्री गुलाबचंद परमार वार्ड क्रं. 4 भोजमार्ग बदनवार

जिला - धार	4	धामनोद	1	श्री रामलाल यादव श्री मायाराम यादव वार्ड क्रं. 4 इंदिरा नगर गुलझरा धामनोद	
			2	श्री संजय चौधरी श्री कृष्ण चौधरी वार्ड क्रं. 14 सुन्दरल रोड धामनोद	
		5	धरमपुरी	1	श्री प्रशांत वर्मा श्री विजय सिंह वर्मा वार्ड क्रं. 9 जवाहर मार्ग धरमपुरी
				2	श्री सुरेश कुमरावत श्री नाथुलाल कुमरावत वार्ड क्रं. 14 धरमपुरी
	6	डही	1	श्री मोहन सिंह ठाकुर श्री रामपाल ठाकुर राजपुत मोहल्ला	
			2	श्री पुष्पेन्द्र भावसार श्रीबाबुलाल भवसार सदर बाजार	
	7	कुक्षी	1	श्री जानेश्वर सोनी श्री शांतिलाल सोनी तिलक मार्ग गली नं. 4 वार्ड क्रं. 8 कुक्षी	
			2	श्री कृष्णकांत शर्मा श्री नारायण गुप्ता महात्मा गांधी मार्ग वार्ड क्रं. 7 जवाहर चौक कुक्षी	

5	जबलपुर	1	पाटन	1	श्री सुशील यादव श्री नर्मदा प्रसाद यादव, पाटन जबलपुर
				2	श्री गनपत प्रसाद बर्मन श्री डब्लु प्रसाद बर्मन पाटन जबलपुर
		2	कटंगी	1	श्री अनिल पाठक श्री रामप्रसाद पाठक कटंगी जबलपुर
				2	श्री रहमत खान श्री चुन्नू खान कटंगी जबलपुर
		3	मझौली	1	श्री विजय कुमार साहू श्री रामदास साहू मझौली जबलपुर
				2	श्री डॉ. सुभाष सराफ श्री कुकंदीलाल सराफ मझौली जबलपुर
		4	बरेला	1	श्री विकास जैन श्री विमल कुमार जैन बरेला जबलपुर
				2	श्री मुन्नालाल नामदेव श्री रघुवीर नामदेव बरेला जबलपुर

6	जिला देवास	1	पीपलरवां	1	श्री रामदास सिंदल श्री किशनलाल सिंदल 1165 अयोध्या बस्ती पीपलरवां देवास
				2	श्री सुरेश सिंह नाहर श्री प्रभुसिंह नाहर 532 दूध डेयरी मार्ग नं. 6 पीपलरवां देवास
		2	सोनकच्छ	1	श्री बट्टी सेलीवाल श्री घासीराम सेलीवाल म.नं. 84 सोनकच्छ देवास
				2	श्री राजेश बारोड श्री देवीलाल जी बारोड प्रगति नगर वार्ड नं. 3 सोनकच्छ
		3	भौरासा	1	श्री मनोहर कुमावत श्री कैलाश कुमावत 365 एम.जी रोड वार्ड नं. 3 भौरासा देवास
				2	श्री बट्टीलाल लोधी श्री चैनसिंह लोधी वार्ड नं. 2 भौरासा देवास
		4	टोंकखुर्द	1	श्री शिवनारायण चौधरी श्री उमरावसिंह चौधरी वार्ड नं. 1 चौधरी मोहल्ला टोंकखुर्द देवास
				2	श्री रामेश्वर धाकड श्री फूलसिंह धाकड म.न. 360 वार्ड नं. 2 धाकडपुरा टोंकखुर्द देवास
		5	बागली	1	श्री रमेशचंद्र माकडिया श्री रतनलाल माकडिया मकान नं. 24 गांधी कॉलोनी बागली देवास
				2	श्री राहुल गुप्ता श्री महेशचंद्र गुप्ता जवाहर मार्ग बागली देवास

जिला देवास	6	करनावद	1	श्री भेरूलाल पाटीदार श्री रामेश्वर पाटीदार करनावद थाना हाटपिपल्या देवास
			2	श्री धर्मेन्द्र विश्वकर्मा श्री नानूराम विश्वकर्मा वार्ड नं. 8 करनावद बागली देवास
	7	कन्नौद	1	श्रीमती विमला माली श्री पूरण माली वार्ड नं. 2 कन्नौद देवास
			2	श्री ओमप्रकाश नंदाने श्री लालजी राम नंदाने 25 राणाप्रताप मार्ग कन्नौद
	8	सतवास	1	श्री दामोदर राठौर श्री कैलाशचंद्र राठौर वार्ड नं. 4 ग्राम 84 सतवास एन.पी.
			2	श्री दीपक बाथम श्री नेमीचन्द्र बाथम सतवास जिला देवास
	9	कांटाफोड	1	श्री जगदीश सोनी श्री शिवनारायण सोनी कस्बा कांटाफोड सतवास देवास
			2	श्री अशोक बाथम श्री मूलचंद्र बाथम म.नं. 90 सतवास देवास
	10	लोहारदा	1	श्री आजाद खां श्री शरीफ खां कस्बा लोहारदा सतवास
			2	श्री दिनेश यादव श्री मिश्रीलाल यादव वार्ड नं. 14 ग्राम कोटखेडा सतवास भेसून कांटाफोड देवास

	जिला देवास	11	खातेगांव	1	श्री प्रेमनायण मालवीय श्री गंगाराम मालवीय बजरंग मार्ग गौंडी मोहल्ला वार्ड नं. 10 खातेगांव देवास
				2	श्री देवेन्द्र साधू श्री गोकुल दास साधू 59 लक्ष्मीबाई मार्ग नरसिंह बाग वार्ड नं. 11 खातेगांव देवास
		12	नेमावार	1	श्री संतोष शर्मा श्री मूलचंद शर्मा नेमावार देवास
				2	श्री गोपाल अग्रवाल श्री सत्यनारायण अग्रवाल नेमावार देवास
		13	हाट पीपल्या	1	श्री विजय कुमार सोलीवाल श्री मांगीलाल सोलीवाल हाटा पीपल्या देवास
				2	श्री गोपालसिंह रजावत श्री भीमसिंह रजावत हाटा पीपल्या देवास
7	जिला - जबलपुर	1	शहपुरा	1	श्री तुलसी राठौर श्री द्वाराका प्रसाद राठौर शहपुरा
				2	श्री कमलेश चौरसिया श्री जगदीश चौरसिया शहपुरा

		2	भेडाघाट	1	श्री अजय पटेल श्री घासीराम पटेल लम्हेटा भेडाघाट
				2	श्री सुभाष खटीक श्री विकास खटीक भेडाघाट जबलपुर
8	जिला - बालाघाट	1	कटंगी	1	श्री प्रकाश देशमुख स्व. श्री रोशनलाल देशमुख वार्ड नं. 03 कटंगी
				2	श्री रोशन मूंडवानी श्री नारायण दास मूंडवानी वार्ड नं. 06 कटंगी

अधि. क्र. 12-एफ-1-15-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगरपालिका परिषदों में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

सं.क्रं.	जिले का नाम	क्रं.	नगर पालिका परिषद का नाम	क्रं.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता
1	शाजापुर	1	शाजापुर	1	श्री बाबूलाल कलमोदिया श्री भंवरलाल कलमोदिया 18 दुपाडा रोड़, शाजापुर
				2	श्रीमती लाजवंती सोनी श्री बृजमोहन सोनी 13 सुगंधी गली, शाजापुर
				3	श्री विक्रम मालवीय (अजा) श्री अम्बाराम जी मालवीय मारवाड सेरी शाजापुर
				4	श्री महेश परमार श्री रामकृष्ण परमार 78 खत्रीपुरा, शाजापुर

	शाजापुर	2	शुजालपुर	1	श्रीमती सुषमा खन्ना श्री आलोक कुमार खन्ना खन्ना हेण्डलूम टेम्पो चौराहा शुजालपुर मण्डी
				2	श्री रमेश चन्द्र सेन श्री हरिसिंह सेन प्रेमनगर कॉलोनी शुजालपुर मण्डी
				3	श्री सुरेश कुमार मालवीय (अजा) श्री हरिराम मालवीय पुराना जटाशंकर रोड सरस्वती स्कूल के पीछे शुजालपुर मण्डी
				4	श्री धमेन्द्र सिंह श्री खन्नूसिंह चौहान बृजनगर चौराहा शुलाजपुर मण्डी
2	जिला- आगर	1	आगर	1	श्री अशोक प्रजापत श्री नदराम प्रजापत छोटा जीन रोड नाना बाजार आगर
				2	श्री अनिल मंडावरा श्री भंवरलाल मंडावरा भाटपुरा गली आगर
				3	श्री रमेश अटोले (अजा) श्री सुखराम अटोले अयोध्या बस्ती आगर
				4	श्रीमती मीना कारपेंटर श्री कन्हैयालाल कारपेंटर खिरनी तकिया जिला आगर मालवा

3	जिला - धार	1	मनावर	1	श्री सुभव जैन श्री मांगीलाल जैन वार्ड क्रं. 2 कांति चोपती मनावर,
				2	श्री जयप्रकाश शर्मा श्री गिरजाशंकर शर्मा वार्ड क्रं. 14 जूनी मनावर
				3	श्रीमती शकुंतला वर्मा (अजा) श्री ग्यारसी लाल वर्मा वार्ड क्रं. 7 राधारमन कॉलोनी, मनावर
				4	श्रीमती ग्यारसी बाई श्री जगदीश पाटीदार वार्ड क्रं. 14 जूनी मनावर
4	जिला भिण्ड	1	भिण्ड	1	श्री केशव प्रजापति (अजा) श्री बहोरीलाल प्रजापति बिलवार मोहल्ला वार्ड 27 भिण्ड
				2	श्रीमती सीमा सेंथिया श्री सत्यनारायण सेंथिया जेल के पास भिण्ड
				3	श्री रतनचंद्र जैन श्री छक्कीलाल जैन महावीरगंज भिण्ड
				4	श्री अजय शर्मा श्री रामभरोसे शर्मा सब्जीमंडी भिण्ड

	जिला भिण्ड	2	गोहद	1	श्री नारायण प्रजापति (अजा) श्री विदयाराम प्रजापति प्रजापति मोहल्ला वार्ड 3 गोहद
				2	श्री राजेन्द्र गुप्ता श्री मथुराप्रसाद गुप्ता पोस्ट आफिस के सामने सदर बाजार, गोहद
				3	श्री रामकुमार राठौर
				4	श्री मीना जाटव श्री रामसिया जाटव पुराना घनश्यामपुर वार्ड नं. 1 गोहद
5	जिला शिवपुरी	1	शिवपुरी	1	श्री अभिषेक शर्मा श्री हरिवल्लभ शर्मा बजरिया मोहल्ला पुरानी शिवपुरी
				2	श्री अनिल सिंह श्री रामहेत भदौरिया खुडा शिवपुरी
				3	श्रीमती शकुन भदौरिया श्री सुजान भदौरिया सिद्धेश्वरी कालोनी रोड़, शिवपुरी
				4	श्री श्यामलाल शाक्य (अजा) श्री हरियालाल शाक्य रईसपुर शिवपुरी

6	जिला गुना	1	गुना	1	श्रीमती रणुवाला निगम श्री विपिन निगम महावीरपुरा, गुना
				2	श्री कमललाल परसौलिया (अजा) श्री राजाराम परसौलिया बी.जी. रोड, भुल्लनपुरा, गुना
				3	श्री राजेश साहू श्री भागीरथ साहू शिवाजी नगर, शिवमंदिर के पास वार्ड नं. 5, गुना
				4	श्री श्यामसुन्दर सोनी श्री चिरोंजीलाल सोनी कमला भवन के पीछे नत्थूखेडी, गुना
7	जिला - जबलपुर	1	सिहोरा	1	श्री विनय जैन श्री प्रकाशचंद्र जैन वार्ड नं. 5 सिहोरा जिला जबलपुर
				2	श्री प्रकाश महोदिया श्री आशाराम महोदिया वार्ड नं. 10 सिहोरा जिला जबलपुर
				3	श्री बैजनाथ प्रसाद शर्मा स्व. श्री कदोरीलाल शर्मा वार्ड नं. 16 सिहोरा जिला जबलपुर
				4	श्रीमती गौरा देवी विश्वकर्मा श्री मूलचंद विश्वकर्मा वार्ड नं. 12 सिहोरा जिला जबलपुर

	जिला - जबलपुर	2	पनागर	1	श्री मुकेश कुमार चौधरी (अजा) श्री लक्ष्मण चौधरी विवेकानंद वार्ड, पनागर, जबलपुर।
				2	श्री अशोक पाण्डे श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डे प्रताप वार्ड पनागर जिला जबलपुर
				3	श्री सरमन कुशवाह श्री रामलाल कुशवाह शिवाजी वार्ड पनागर जिला जबलपुर
				4	श्रीमती प्रेमलता पटेल श्री प्रहलाद पटेल आजाद वार्ड पनागर जिला जबलपुर
8	जिला ग्वालियर	1	डबरा	1	श्रीमती इन्द्रजीत सिंधू श्री लखबिन्द्र सिंह सिंधू वार्ड नं. 26 डबरा
				2	श्री देवी सिंह रावत श्री मेहरबान सिंह रावत एमएलए रोड डबरा
				3	श्री विपीन आनंद श्री यशपाल आनंद सुभाषगंज बाम्बे बूट हाउस डबरा
				4	श्री राजेन्द्र घुरा (अजा) श्री रामस्वरूप घुरा, वार्ड नं. 26, डबरा

9	जिला भोपाल	1	बैरसिया	1	श्री मोहन सोनी श्री जमना प्रसाद सोनी जैन कॉलोनी विदिशा रोड वार्ड क्रं 16 . बैरसिया
				2	श्रीमती शोभा सोमानी श्री राधेश्याम सोमानी दुर्गा चौक वार्ड क्रं 09 .बैरसिया
				3	श्री शैलेश श्रीवास्तव स्व श्री लालहित शरण . सावलिया मंदिर शास्त्री चौक वार्ड क्रं 06 . बैरसिया
				4	श्री भैयालाल मालवीय (अजा) श्री झब्बूलाल मालवीय मातन का घेरा दतिया
10	जिला -मुरैना	1	अम्बाह	1	श्री हरीश तोमर श्री राजेन्द्र सिंह उसैद घाट रोड अम्बाह
				2	श्री अशोक सखवार श्री बट्टी सखवार
				3	श्री दाउदयाल शर्मा श्री कीर्तराम शर्मा डायवर्सन रोड गुरुदारे के पास अम्बाह
				4	श्रीमती किशोरी गुप्ता

	जिला -मुरैना	2	पोरसा	1	श्रीमती रीता तोमर श्री अरविंद तोमर निकट नगर पालिका कार्यालय पोरसा
				2	पं. राजकुमार व्यास श्री कल्याण प्रसाद व्यास गली घनेटा रोड पोरसा
				3	श्री संजय बाल्मीक श्री सुरेश कुमार नई बस्ती वार्ड क्रं. 2 पोरसा
				4	श्री दिलदार सिंह श्री वादाम सिंह घनेटा रोड पोरसा
	3	सबलगढ़	1	श्री सरवन लाल गुप्ता श्री बट्टी प्रसाद स्कुल गली सबलगढ़	
			2	श्री रघुवीर जाटव श्री पतिराम जाटव बेनीपुरा सबलगढ़	
			3	श्रीमती मुन्नी देवी श्री अजन सिंह सबलगढ़ किले के सामने वाली कॉलोनी सबलगढ़	
			4	श्री मुंशी सोनी 7 परधान रोड सबलगढ़	

11	सिवनी	1	सिवनी	1	श्री यशवंत सोनी श्री नंदन सोनी कस्तूरबा वार्ड सिवनी
				2	श्री गोपाल पवने (अजा) श्री करतार सिंह पवने अम्बेडकर वार्ड सिवनी
				3	श्रीमती एकता चौरसिया श्री नंदकिशोर चौरसिया अशोक वार्ड सिवनी
				4	श्री अरूण उपाध्याय श्री इन्द्रनारायण उपाध्याय भैरोगंज, सिवनी
12	दतिया	1	दतिया	1	श्री सुशील कुमार सोनी श्री कृष्ण स्वरूप सोनी रिछरा फाटक दतिया
				2	श्री फूलमति कुशवाह श्री गुलाब सिंह कुशवाह झिरका बाग दतिया
				3	श्री मोहन पटवा श्री गोविन्द पटवा सोनी वाली गली दतिया
				4	श्री मुकेश यादव श्री कर्ण सिंह यादव मातन को घेरा दतिया

13	बैतूल	1	बैतूल	1	श्री तपन मालवीय श्री शशिकांत मालवीय अम्बेडकर वार्ड टिकारी बैतूल
				2	श्री श्याम टेकपुर (अजा) श्री मुंगल टेकपुर चुन्नीदास गणेश वार्ड बैतूल
				3	श्रीमती ममता तिलानते (अजा) श्री दुर्गादास तिलानते टिकारी कोठी बाजार बैतूल
		2	मुलताई	1	श्री राम जोशी श्री सूर्यकांतराव जोशी विवेकानंद वार्ड मुलताई जिला बैतूल
				2	श्रीमती ललिता ठाकरे श्री जयदीप ठाकरे महावीर वार्ड मुलताई जिला बैतूल
				3	श्री हरीश पटेल श्री सहदेव पटेल भगत सिंह वार्ड मुलताई जिला बैतूल
				4	श्री सुनील विहारे (अजा) श्री भैयालाल विहारे गांधी वार्ड मुलताई
		3	आमला	1	श्री सफी मोहम्मद खान श्री अब्दुल नव्बी खान वार्ड नं 2 .आमला तहआमली जिला बैतूल
				2	श्री शांति पवार श्री रामप्रसाद पवार वार्ड नं 12 .आमला तहआमली जिला बैतूल

	बैतूल			3	श्री अनिल यादव श्री बलवंत प्रसाद यादव वार्ड नं 12 .आमला तहआमली जिला बैतूल	
				4	श्री राजेश पन्डोले (अजा) श्री मानखनलाल पंडोले वार्ड नं 17 .आमला तहआमली जिला बैतूल	
				4	सारनी	1
					2	श्री श्याम विहारे (अजा) श्री भूरा विहारे वार्ड नं 30 .शोभापुर सारनी तह घोडाडोंगरी
					3	श्रीमती आशा डेहरिया (अजा) श्री गुरप्रसाद डेहरिया वार्ड नं 25 .पाथाखेड़ी सारनी
					4	श्री कमलेश सिंह श्री राजेन्द्र सिंह वार्ड नं 36 .पाथाखेड़ी सारनी तह घोडाडोंगरी
14	नीमच	1	नीमच	1	श्री लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा श्री शोभाराम विश्वकर्मा कालीदास मार्ग, नीमच सिटी नीमच	
				2	श्रीमती संकुतला नरवले श्री धीरूमल राजवी नगर नीमच कैंट	

	नीमच			3	श्रीमती मीनू लालवानी श्री चंद्रप्रकाश लालवानी बगीचा नम्बर 10 नीमच सिटी रोड नीमच
				4	श्री भीमसिंह सैनी श्री प्रभुदयाल सैनी गोपाल गली सादडी रोड बघाना नीमच
15	राजगढ	1	नरसिंहगढ	1	श्री माधुरी यादव स्व 14 .श्री मनोज यादव वार्ड न . नरसिंहगढ
				2	श्री गोपाल खत्री (अजा) श्री जगन्नाथ सिंह वार्ड न 03 .नरसिंहगढ
				3	श्री जितेन्द्र सिंह श्री महादेव सिंह वार्ड न 09 .नरसिंहगढ
				4	श्री मुकेश गुप्ता श्री बाबूलाल गुप्ता वार्ड न 10 .नरसिंहगढ
		2	सारंगपुर	1	श्री किशन पुष्पद श्री शिवचरण वार्ड न 01 .सारंगपुर
				2	श्री हजारीलाल जाटव (अजा) श्री नाथूलाल जाटव वार्ड न 02 .सारंगपुर
				3	श्रीमती कमला बाई जाटव श्री प्रेम जाटव वार्ड न 09 .सारंगपुर
				4	श्री महावीर जैन श्री बसंतीलाल जैन पुरानी नगर पालिका के पास, सारंगपुर

राजगढ़	3	राजगढ़	1	श्री कृष्णचंद्र कोसरवाल (अजा) श्री बद्रीलाल कोसरवाल वार्ड नं 2 .बिरजीपुर, राजगढ़
			2	श्री बाबूलाल वर्मा श्री प्रभूलाल वर्मा वार्ड नं .पाडाखाना राजगढ़
			3	श्री जगदीश दास श्री सियाराम दास पारायण चौक गंज
			4	श्रीमती अनिता वर्मा श्री राधेश्याम वर्मा मिर्ची बाजार राजगढ़
	4	ब्यावरा	1	श्री फूलसिंह कुशवाहा श्री दुलीचंद माताजी मोहल्ला खुजनेर, तहसील राजगढ़
			2	श्री मोन प्रसाद समाधिया श्री ब्रजलाल समाधिया वार्ड नं05 ., ब्यावरा
			3	श्री गोपाल जाटव (अजा) श्री जगन्ननाथ जाटव वार्ड नं10 ., ब्यावरा
			4	श्रीमती आशा शर्मा श्री राजेन्द्र शर्मा वार्ड नं08 ., ब्यावरा

16	बालाघाट	1	वारासिवनी	1	श्री रमेश धारनवार श्री सुखलाल धारनवार वार्ड नं 12 .वारासिवनी
				2	श्री शैलेन्द्र सेठी स्व श्री मुरलीधर आहूजा . वार्ड नं 15 .वारासिवनी
				3	श्री भोजू डहरवाल (अजा) श्री हरीश साव वार्ड नं 08 .वारासिवनी
				4	श्रीमती इन्दू चौरे श्री पृथ्वीराज चौरे वार्ड नं 01 .एस .डी.वारासिवनी
		2	मलाजखण्ड	1	श्री सूरजलाल देशमुख स्व श्री .भेजनलाल देशमुख वार्ड नं 06 .मोगांव
				2	श्री कपूर मराठे श्री भैयालाल मराठे वार्ड नं08 ., बंजारी टोला
				3	श्री विजय वल्के (अजा) स्वश्री ज्ञानसिंह वल्के . वार्ड नं20 ., भिमजोरी मलाजखण्ड
				4	श्रीमती क्षमा जैन श्री जयप्रकाश जैन वार्ड नं07 ., पोनी मलाजखंड

अधि. क्र. 11-एफ-1-13-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगरपालिक निगमों में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान निगमों के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

क्रं.	निगम का नाम	क्रं.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता
1	नगर पालिक निगम उज्जैन	1	श्री राजेश शर्मा श्री मांगीलाल शर्मा, 45, कलाल सेनी उज्जैन
		2	श्री दुलीचंद प्रजापति स्व. श्री बाबूलाल प्रजापति गंगा नगर नानकखेडा इंदौर रोड़ उज्जैन
		3	श्री विवेक उद्गीर श्री रामचंद्र उद्गीर, एलआईजी 02/394 इन्द्रानगर उज्जैन
2	नगर पालिक निगम रतलाम	1	श्री देवशंकर पाण्डेय श्री इन्द्रपाल सिंह पाण्डेय एमआईजी 6 रतनपुरी कॉलोनी रतलाम
		2	श्री महेश अग्रवाल श्री रामेश्वर अग्रवाल 21 न्यू क्लॉथ मार्केट रतलाम
	—	3	श्री दिलीप गांधी श्री बाबूलाल गांधी 65 परिवारों का वास रतलाम
		4	श्री गोपाल सिंह सोलंकी श्री देवी सिंह सोलंकी 59/1 रामदेवजी घाटी रतलाम
		5	श्री प्रभु नेका श्री देवचंद नेका 594 सुभाष नगर रतलाम
		6	श्रीमती तारादेवी सोनी श्री प्रहलाद सोनी 317/52 रामदेवजी घाटी रतलाम

3	नगर पालिक निगम छिंदवाडा	1	श्रीमती संगीता शर्मा श्री अरूण शर्मा रेल्वे स्टेशन के सामने वार्ड नं. 17 छिंदवाडा
		2	श्री रामराव कपाले स्व. श्री तिमाजी कपाले लोनिया वार्ड नं. 40 छिंदवाडा
		3	श्री सुनील सिंह ठाकुर श्री रतन सिंह ठाकुर वार्ड नं. 16 निवासी खापाभाट छिंदवाडा
		4	श्री रविन्द्र पोफली स्व. श्री शंकरराव पोफली गणेश चौक छिंदवाडा
		5	श्रीमती भारती देशवाडे श्री अशोक देशवाडे वार्ड नं. 13 रामबाग छिंदवाडा
		6	श्री घनश्याम पन्जवाणी श्री लखनलाल पन्जवाणी मोहन नगर वार्ड नं. 16 छिंदवाडा
4	नगर पालिक निगम जबलपुर	1	श्री गणेश मिश्रा श्री राम गोपाल मिश्रा 250, महात्मा गांधी वार्ड, उत्तर वि.स. जबलपुर
		2	श्री नरेन्द्र वर्मा श्री ओ.पी. वर्मा 1574 पश्चिमी घमापुर शीतलामाई जबलपुर
		3	श्री अनिल भल्ला श्री मदनलाल भल्ला 2386 बेदी नगर मदन महल जबलपुर पश्चिम
		4	श्रीमती सोना वर्मा श्री रोशन सिंह वर्मा डुमना तिराहा महगवा वार्ड नं. 79 वि.स. केन्ट

		5	श्री अनूप शुक्ला श्री द्वारका प्रसाद शुक्ला 289 करमचंद चौक भवानी प्रसाद वार्ड जबलपुर उत्तर
		6	श्री जयपाल गोग्या स्व. श्री नारायणदास गोग्या 24 द्वारका नगर जबलपुर
5	नगर पालिक निगम ग्वालियर	1	श्रीमती विनीता शर्मा श्री रामसेवक शर्मा हेलीपेड कॉलोनी, ग्वालियर
		2	श्री मनीष राजौरिया श्री के.एल. राजौरिया सिंधी कॉलोनी, माधागंज ग्वालियर
		3	श्री ओमप्रकाश शेखावत श्री सूरत सिंह शेखावत बिरला नगर, ग्वालियर
		4	श्री मनोज तोमर श्री प्रहलाद सिंह तोमर शिवाजी नगर आमखो लशकर, ग्वालियर
		5	श्री अनिल त्रिपाठी श्री महेशचंद्र त्रिपाठी 10/1 बलवंत नगर गांधी रोड़ ग्वालियर
		6	श्री अशोक गेंडा श्री बाबूलाल गेंडा कृष्णा टोली लोहिया बजार ग्वालियर
6	नगर पालिक निगम देवास	1	श्री शशीकांत यादव श्री बाबूलाल यादव 13, लाला लाजपत राय मार्ग, देवास
		2	श्री भरत चौधरी श्री रमणलाल चौधरी 58, तारणी कॉलोनी, देवास

		3	श्रीमती विनिता व्यास श्री मनीष व्यास 143, भगत सिंह मार्ग तहसील चौहारा, देवास
		4	श्री रामचरण पटेल श्री केदार सिंह पटेल 8, पालनगर, देवास
		5	श्री आशुतोष जोशी श्री बाबूलाल जोशी विजय नगर, देवास
		6	श्री गुणपाल सिंह श्री मोरधन सिंह मोती बंगला, देवास
7	नगर पालिक निगम भोपाल	1	श्री शिवलाल मकरोनिया श्री गया प्रसाद मकरोनिया 245, आर हाउस खजूरी कला रोड भेल भोपाल .पी.
		2	श्री सूर्यकांत गुप्ता स्वश्री काशीराम गुप्ता. रचना नगर 3/3, भोपाल
		3	श्रीमती वंदना जाचक श्री सुधीर जाचक एलआईजी प शिवाजी स्टॉ .नं 5 कससरिता काम्प्ले 4/38 नगर, भोपाल
		4	श्री भीम सिंह राजपूत श्री प्रभुलाल राजपूत ग्राम गोंदरमऊ, गांधी नगर, भोपाल
		5	श्री भगवत सिंह रघुवंशी स्वश्री सुमेर सिंह रघुवंशी . सी शाहपुरा भोपाल 430
		6	श्रीमती नीलिमा पाण्डे स्वश्री अशोक पाण्डे . नगर .टी.बाणगंगा टी 24, दशहरा मैदान के पास, भोपाल

8	नगर पालिक निगम कटनी	1	श्री हरिशंकर गर्ग पिता श्री भूपति प्रसाद गर्ग महाराणा प्रताप वार्ड अमकुई कटनी
		2	श्रीमती नीरा सेठिया श्री संतोष सेठिया जालपा देवी वार्ड, कटनी
		3	श्रीमती शिल्पी सोनी श्री आशीष सोनी पुरानी बस्ती कटनी
		4	श्री महेश शुक्ल श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल छपरवाह, कटनी
		5	श्री सत्यनारायण तिवारी पिता श्री किशन तिवारी जालपा देवी मढिया के पास कटनी
		6	श्रीमती शोभा कुरील श्री मुरारी कुरील झर्रा टिकुरिया, कटनी
9	नगर पालिक निगम मुरैना	1	श्री केदार सिंह यादव श्री आनंदीलाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना
		2	श्रीमती ऊषा बादिल श्री के.के. बादिल झंडा चौक मेन बाजार मुरैना
		3	श्री मुकेश जाटव स्व. श्री रामकिशन जाटव जीन गली नं. 2 रूई की मंडी मुरैना

		<p>4 श्री किशन गांगिल श्री पन्नालाल गांगिल छोटी बजारिया मुरैना</p>
		<p>5 डॉ. सरमन सिंह सिकरवार श्री माखनसिंह सिकरवार छोटी बजारिया मुरैना</p>
		<p>6 श्री राधेश्याम श्रीवास्तव श्री शिव नारायण श्रीवास्तव केशव कॉलोनी एसपी बंगले के पीछे एच-9</p>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.